

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4—मार्च 10, 2017 (फाल्गुन 13, 1938)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4—MARCH 10, 2017 (PHALGUNA 13, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2017

सं. डीपी/पर्स-1/2017/86/03/01/2017—भारत के राष्ट्रपति, श्री आलोक कुमार वर्मा, भा.पु.सेवा (एजीएमयू : 1979) को दिनांक 01.02.2017 की पूर्वाह्न से दिनांक 31.01.2019 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में निदेशक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ह /— अपठनीय
उप-निदेशक (कार्मिक)
के.अ.ब्यूरो, मु.

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 फरवरी 2017

सं. ओ.दो-3702/2017-कार्मिक-डी.ए.-1—भारत सरकार ने श्री कुलदीप सिंह, भा.पु.से. (डब्ल्यू.बी. : 86) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में लेटरल शिफ्ट में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शेष प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात् दिनांक 29/05/2018 अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु.बल., का कार्यभार दिनांक 02/02/2017 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 17 फरवरी 2017

सं. ओ.दो-3973/14-कार्मिक. एम.ओ.—प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूर्ण होने के फलस्वरूप डॉ. ई.0 चोबा सिंह, सहायक कमाण्डेंट/वी.ए.एस.0, इरला-9899 की सेवाएँ दिनांक 10/02/2017 (पूर्वाह्न) से उनके मूल विभाग अर्थात् सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) के अधिकार में प्रतिस्थापित की जाती है।

2. तदनुसार डॉ. ई.0 चोबा सिंह, सहायक कमाण्डेंट/वी.ए.एस.0, इरला-9899 को दिनांक 10/02/2017 (पूर्वाह्न) से इस निर्देश के साथ कार्यमुक्त किया गया है कि वह डी.बी.सी., डेरा, अलवर (राजस्थान) को रिपोर्ट करेंगे।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 14 फरवरी 2017

स्थापना आदेश संख्या 60 (ज्ञापन सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IX/3058)—ज्ञापन सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IX/2941 दिनांक 01.02.2017 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 1080 दिनांक 01.02.2017 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल -9 पर लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है :—

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	श्री मनोज कुमार सामल	03.02.2017 पूर्वाह्न

रिन्ग्हा महान्ति
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

दिनांक 17 फरवरी 2017

स्थापना आदेश संख्या : 62 (ज्ञापन सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IX/4018)—ज्ञापन सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IX/2568 दिनांक 27.12.2016 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 958 दिनांक 27.12.2016 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल-9 पर लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है :—

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	श्री बसन्त कुमार जेना	02.01.2017 पूर्वाह्न

रिन्ग्हा महान्ति
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपूर, दिनांक 10 फरवरी 2017

सं. ए 19012/577/2017 स्था. ए.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री टी.एस. सातपुते, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्राइंग) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर में दि. 13.01.2017 (अपराह्न) से सहायक आरेखण अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

संजय कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए 19011/678/2016—स्था. ए.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री रुद्र नारायण मिश्रा, को भारतीय खान ब्यूरो, रायपूर में दिनांक 27.12.2016 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

संजय कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

दिनांक 13 फरवरी 2017

सं. ए: 19011/668/2016 —स्था.ए.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री सुभ्र कुमार पॉल, को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 23.01.2017 (पूर्वाह्न) से रसायनविद् के पद पर नियुक्ति की जाती है।

संजय कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

नागर विमानन का मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 फरवरी 2017

सं. ए.32013/03/2016-स्था-1(भाग)—डा. रमाकान्त सिंह, उप निदेशक(वायु.इंजी) द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 5802/2015 - डा. रमाकांत सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 11.08.2016 के आदेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2016 को संघ लोक सेवा आयोग में हुई विभागीय पदोन्नति समिति समीक्षा बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति महोदय डा. रमाकांत सिंह को उनके निकटतम कनिष्ठ श्री हिलोल बिस्वास की पदोन्नति की तारीख दिनांक 24.09.2015(पूर्वा.) से कल्पित आधार पर तथा दिनांक 29.12.2016 से (निदेशक, वायु.इंजी.) के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण की तारीख से वास्तविक आधार पर पे-बैंड-4, 37400-67000 + ग्रेड वेतन 8700/- (पूर्व संशोधित) वेतनमान में निदेशक(वायु.इंजी.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री अमित गुप्ता, निदेशक (वायु.इंजी) को एतद्वारा दिनांक 29.12.2016 से पे-बैंड-3, 15600-39100+ग्रेड वेतन 7600/- (पूर्व संशोधित) वेतनमान में उनके स्थायी पद उप-निदेशक (वायु.इंजी) के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

3. उपर्युक्त नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों तथा नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार श्री ए. के. तिवारी द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (मुख्य पीठ) नई दिल्ली में दायर ओ.ए.सं. 4044/2014 श्री ए.के.तिवारी बनाम भारत संघ तथा अन्य में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

डी.एस.रावत
उप निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 10 फरवरी 2017

सं. ए 32016/02/2011-स्था-I (खण्ड-II)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति महोदय श्री सतीश कुमार आनंदन को दिनांक 08/08/2016 के पूर्वाह्न से 15,600-39,100 रूपए+ग्रेड वेतन 5400/-रूपए (पूर्व संशोधित) वेतनमान में नागर विमानन महानिदेशालय (नागर विमानन मंत्रालय) में स्थानापन्न आधार पर वैमानिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हैं।

2. वे अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और सक्षम प्राधिकारी यदि उचित समझे तो परिवीक्षा अवधि विस्तारित की जा सकेगी।

डी.एस.रावत
उपनिदेशक प्रशासन

सं. ए 32016/03/2010-स्था-I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति महोदय श्री वीरेन्द्र कुमार कबीर, को दिनांक 10.08.2016 (पूर्वाह्न) से 15,600-39,100+ग्रेड वेतन 6600 (पूर्व संशोधित) वेतनमान में नागर विमानन महानिदेशालय (नागर विमानन मंत्रालय) में स्थानापन्न आधार पर सहायक निदेशक (वायुयान इंजीनियरी) के पद पर नियुक्ति करते हैं।

2. अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकारी यदि उचित समझे तो इनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

डी.एस.रावत
उपनिदेशक प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

एलएलपी नियम, २००९ और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2017

सं. आर.ओ.सी/एल.एल.पी/२०१७ - एलएलपी नियम, २००९ के नियम ३७ की उपधारा (३) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एलएलपी के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं और निम्न एलएलपी विघटित हो गई हैं :—

Sl. No.	LLP No.	Name of LLP	SRN
1	AAA-1149	स्पेसवाक एडुटेनमेंट एलएलपी	M00131698
2	AAB-9299	जेसी टैक सपोर्ट एलएलपी	M00426528
3	AAB-3732	बैरक ऑटोमोबाइल्स एलएलपी	M00742833
4	AAC-1243	शरमन सर्विसेज एलएलपी	M01668763
5	AAA-7405	एसीजी एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी	एलएलपी नियम, २००९ के नियम ३७ क् अधीन स्वतः संज्ञान
6	AAA-8456	टीमोक्सियो टेक्नोलॉजीज एलएलपी	एलएलपी नियम, २००९ के नियम ३७ क् अधीन स्वतः संज्ञान

Sl. No.	LLP No.	Name of LLP	SRN
7	AAA-3578	ऐस फॉर्मलेशन्स एलएलपी	एलएलपी नियम, २००९ के नियम ३७ क् अधीन स्वतः संज्ञान

वी. जी. निपाने
सह रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 फरवरी 2017

सं. क0/र0/शि0/560(5)/2016/3386—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एददद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनियों के नाम काट दिये गये हैं :—

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1	U01400TR2015PTC008399	फ़ाशीनोका डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड
2	U40101MZ2011PLC008269	मिजोरम पावर डेवेलोपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
3	U10101MZ2011SGC008268	मिजोरम मिनरल डेवेलोपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
4	U01400AS2011PLC010608	दिया अग्रोकोन लिमिटेड

चन्दन कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
मेघालय

एल. एल. पी. अधिनियम, 2008 और निम्नलिखित एल. एल. पी. के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 फरवरी 2017

सं. क0/र0/शि0/560(5)/2016/3386—अललपी नियम की धारा (1) नियम 37 के तहत सीमित दहिती भदधारी के अनुशार यह सूचना दी जाति है की यहा दिनक से एक महीना के बाद निम्नीलिखित अललपी का नाम जब तक कारण दर्शाय न जाय तो वोक्त नियम के (1) की नियम 37 के अनुशार उनके नाम अललपी नियम 2009 अनुशार रैजिस्ट्रार से काट दिया जायगा :—

SLNO	Name of Company	CIN
1	एनेर्सिवा इयनामिक्स एलएलपी	AAB1756

चंदन कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
मेघालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 7 फरवरी 2017

सं. 3(161)/560(5)/2017—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र. सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2607	सुवेता ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	2602	ग्रेआत्वे टूरिसम प्राइवेट लिमिटेड
3	2566	पॉडि रिजॉर्ट्स डेवलपमेंट आंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
4	1979	शेरिन ओवरसीस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड

एस. आर. राधिका
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

New Delhi-110003, the 14th February 2017

No. DP/Pers.I/2017/86/03/01/2017—President of India is pleased to appoint Shri Alok Kumar Verma, IPS (AGMU:1979) as Director, Delhi Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation with effect from forenoon of 1.2.2017 for a period of two years upto 31.1.2019.

Sd/- ILLEGIBLE
Deputy Director (Pers.)
CBI: HQ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-03, the 2nd February 2017

No. O.II-3702/2017-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Kuldip Singh, IPS (WB : 86) as Inspector General (IG) in CRPF on deputation in lateral shift basis from the date of assumption charge of the post and up to completion of his balance central deputation tenure i.e. 29/05/2018 or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer, accordingly took over the charge of the post of Inspector General, CRPF on the forenoon of 02/02/2017.

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers.)

The 17th February 2017

No. O.II-3973/2014-Pers(MOs)—Consequent on completion of tenure of deputation, services of Dr. E. Chaoba Singh, Assistant Commandant/VAS, IRLA-9899 replaced at the disposal of his parent department i.e, Sashastra Seema Bal (SSB) on 10/02/2017 (FN).

2. Accordingly, Dr. E. Chaoba Singh, Assistant Commandant/VAS, IRLA-9899 has been relieved from CRPF w.e.f. 10/02/2017 (FN) with direction to report to DBC, Dera, Alwar (Rajasthan).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 14th February 2017

E.O. No. 60 (Memo No.Admn(G&SSA)/17-2(AO)/Vol.IX/3058)—In pursuance of OOC No. 1080 dated 01.02.2017 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/ (AO)/Vol.IX /2941dated 01.02.2017 the following Asst. Audit Officer on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in the Pay Level 9 in Pay Matrix with effect from the date as indicated against him:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of taking over charge as Audit Officer
1.	Shri Manoj Kumar Samal	03.02.2017 FN

SNIGDHA MAHANTI
Sr. Audit Officer/ Admn

The 17th February 2017

E.O. No. 62 (Memo No.Admn(G&SSA)/17-2(AO)/Vol.IX/4018)—In pursuance of OOC No. 958 dated 27.12.2016 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/ (AO)/Vol.IX /2568 dated 27.12.2016 the following Asst. Audit

Officer on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in the Pay Level 9 in Pay Matrix with effect from the date as indicated against him:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of taking over charge as Audit Officer
1.	Shri Basanta Kumar Jena	02.01.2017 FN

SNIGDHA MAHANTI
Sr. Audit Officer/ Admn.

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)
Nagpur, the 10th February 2017

No.A-19012/577/2017-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri T.S. Satpute, Senior Technical Assistant(Drawing), is promoted to the post of Assistant Drawing Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f 13.01.2017 (A.N.).

SANJAY KUMAR SINGH
Administrative Officer
For Controller General

No.A-19011/678/2016-Estt. A—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Rudra Narayan Mishra , to the post of Senior Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Raipur w.e.f 27.12.2016 (F/N).

SANJAY KUMAR SINGH
Administrative Officer
For Controller General

The 13th February 2017

No.A-19011/659/2016-Estt. A—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Subhra Kumar Paul , to the post of Chemist in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 23.01.2017 (F/N).

SANJAY KUMAR SINGH
Administrative Officer
For Controller General

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi-110003, the 9th February 2017

No. A.32013/03/2016-E-I(Pt.).—On the basis of the recommendations of the Review DPC held on 07/12/2016 at Union Public Service Commission in compliance with the directions of the Hon'ble High Court of Delhi vide their Order dated 11.08.2016 in W.P (C) No. 5802/2015 filed by Dr. Ramakant Singh Vs. UOI and Ors, the President is pleased to appoint Dr. Ramakant Singh, Deputy Director (Aircraft Engineering) on his promotion to the post of Director (Aircraft Engineering) in PB-4, Rs.37,400 – 67000 +Grade Pay of Rs.8700/-(Pre-revised) with effective from 24.09.2015 (F.N) on notional basis with reference to the date of appointment of his immediate junior, Shri Hillol Biswas and actual promotion with effect from 29/12/2016 (the date of assumption of charge of the post of Director, Aircraft Engineering).

2. Shri Amit Gupta, Director (Aircraft Engineering) is hereby reverted to his substantive post of Deputy Director (Aircraft Engineering) in PB-3, Rs.15,600-39,100+Grade Pay of Rs.7600/- (Pre-revised) with effect from 29/12/2016.

3. The above appointment shall be subject to the outcome of O.A No.4044/2014 filed by Shri A. K. Tewari Vs. UOI & Ors in the Hon'ble CAT (PB), New Delhi in accordance with the recommendations of Union Public Service Commission and as per approval given by Ministry of Civil Aviation.

D. S. RAWAT
Deputy Director of Administration

The 10th February 2017

No.A.32016/02/2011-E-I(Vol.II)—On the basis of recommendation of Union Public Service Commission, the President of India is pleased to appoint Shri Sathish Kumar Anandan to the post of Aeronautical Officer in an officiating capacity in the pay scale of Rs. 15,600- 39,100 +G.P Rs.5400/- (Pre-revised) in the Directorate General of Civil Aviation (Ministry of Civil Aviation) w.e.f 08/08/2016 (F.N.)

2. He will be on probation for a period of two years from the date of his joining and period of probation shall be liable to be extended if the Appointing Authority deems fit.

D. S. RAWAT
Deputy Director of Administration

No.A.32016/03/2010-E-I.—On the basis of recommendation of Union Public Service Commission, the President of India is pleased to appoint Shri Veerendra Kumar Kabir to the post of Assistant Director (Aircraft Engineering) in an officiating capacity in the pay scale of Rs. 15,600- 39,100 +G.P Rs.6600/- (Pre-revised) in the Directorate General of Civil Aviation (Ministry of Civil Aviation) w.e.f 10/08/2016 (F.N)

2. He will be on probation for a period of two years from the date of his joining and period of probation shall be liable to be extended if the Appointing Authority deems fit.

D. S. RAWAT
Deputy Director of Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(O/O REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of LLP Rules, 2009 and of the following LLPs

Chandigarh, the 31st January 2017

No. ROC/LLP/2017—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of LLP rules, 2009 that the name of following LLPs have this day been struck off from the Register and the said LLPs dissolved:—

Sl. No.	LLP No.	Name of LLP	SRN
1	AAA-1149	SPACWALK EDUTAINMENT LLP	M00131698
2	AAB-9299	JC TECH SUPPORT LLP	M00426528
3	AAB-3732	BERK AUTOMOBILES LLP	M00742833
4	AAC-1243	SHARMAN SERVICES LLP	M01668763
5	AAA-7405	ACG ADVISORY SERVICES LLP	SUO MOTO UNDER RULE 37 OF LLP RULES
6	AAA-8456	TEAMOXIO TECHNOLOGIES LLP	SUO MOTO UNDER RULE 37 OF LLP RULES
7	AAA-3578	ACE FORMULATIONS LLP	SUO MOTO UNDER RULE 37 OF LLP RULES

V.G.NIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

Shillong-793001, the 16th February 2017

No. ROC/SH/560(5)/2016/ 3386—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of below mentioned Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved:—

SL NO.	CIN NUMBER	NAME OF COMPANY
1.	U17122AS2015PTC012249	Fashionika Desgns Private Limited
2	U40101MZ2011PLC008269	Mizoram power development corporation Ltd

SL NO.	CIN NUMBER	NAME OF COMPANY
3	U10101MZ2015 SGC008268	Mizoram Mineral Development Corporation Ltd
4	U01400AS2011PLC010608	Diya Agrocon Limited

CHANDAN KUMAR
Registrar of Companies
Meghalaya

IN THE MATTER OF LLP ACT, 2008 AND OF THE FOLLOWING LLP'S

Shillong-793001, the 16th February 2017

No. ROC/SH/LLP-Rule-37 (3)/2016/3386—Notice is hereby given pursuant to Sub-Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of said companies has this day been struck off from the Register and the said LLP is dissolved:—

Sl No.	CIN Number	Name of the Company
1	AAB1756	ENERSIVA DYNAMICS LLP

CHANDAN KUMAR
Registrar of Companies
Meghalaya

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry-605011, the 7th February 2017

No. 3(161) / 2017—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	U52390PY2011PTC002607	SUVETHA TRADERS PRIVATE LIMITED
2.	U74900PY2011PTC002602	GREATWAY TOURISM PRIVATE LIMITED
3.	U74900PY2011PTC002566	PONDI RESORTS DEVELOPMENT AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
4.	U80301PY2006PTC001979	SHERIN OVERSEAS EDUCATION PRIVATE LIMITED

S. R. RADHIKA
Registrar of Companies
Puducherry

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed
by LAZAR
SAGAYA RAJ
Date: 2017.03.04
12:21:00 +05'30'